

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2025 — फाल्गुन 9, शक 1946

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, डी.के.एस. भवन के सामने
पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक—150/स्था./2025/931.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा छत्तीसगढ़ निर्वाचन (राजपत्रित) (प्रथम एवं द्वितीय) सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (च) का लोप किया जाए ।
- नियम 18 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
“(1) सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।”
- नियम 18 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-
“(4) पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जाएगा।”
- अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 1 एवं 2 के कॉलम (3) में, अंक “1” के स्थान पर अंक “2” क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए ।
- अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 1 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“1.	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	2	—	50%	50%	राज्य प्रशासनिक सेवा से 1 पद प्रतिनियुक्ति पर तथा 1 पद सेवा के मूल सदस्यों द्वारा भरे जाएंगे । यदि पदोन्नति द्वारा पद नहीं भरे जाते हैं, तो राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे।”

6. अनुसूची—दो के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (3) में, अंक "1" के स्थान पर, अंक "2" प्रतिस्थापित किया जाए।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन सचिव
छ.ग. शासन विधि एवं विधायी (निर्वा) कार्य विभाग

Raipur, the 28th February 2025

NOTIFICATION

No.—150/स्था./2025/931.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Election (Gazetted) (Class&-I and II) Service Recruitment Rules, 2014, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. Sub-clause (f) of clause (I) of rule 8 shall be omitted.
2. For sub-rule (1) of rule 18, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(1) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 years."
3. After sub-rule (3) of rule 18, the following sub-rule shall be added, namely:-
"(4) Every person posted by promotion to the service shall be appointed on officiating capacity for a period of 2 years."
4. In column (3) of serial number 1 and 2 of Schedule-I, for the figure "1", the figure "2" shall be substituted, respectively.
5. For the entries relating to serial number 1 of Schedule-II, the following serial number shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"1.	Deputy Chief Electoral Officer	2	-	50%	50%	1 post on deputation from State Administrative Services and 1 post shall be filled by substantive members of the service. If the post is not filled up by promotion, the same shall be filled up by deputation from State Administrative Services."

6. In column (3) of serial number 2 of Schedule-II, for the figure "1", the figure "2" shall be substituted.

Sd/-

(Reena BabaSaheb Kangale)

Chief Electoral Officer & Ex-Officio Secretary
Law and Legislative Affairs (Election)